



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आश्विन 1934 (श0)
(सं0 पटना 511) पटना, शुक्रवार, 28 सितम्बर 2012

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

27 सितम्बर 2012

सं0 नि०प्रा०/नि० 1-25/2012/ **9571**—बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम, 2011 के धारा-14 (क) (1) के प्रावधानों के आलोक में सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या 1273, दिनांक 01.03.2012 द्वारा बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के अधीन निर्बाधित सहकारी समितियों के प्रबंध समिति के निर्वाचन संचालन का दायित्व बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सौंपा गया है।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 की धारा-5 (2) एवं बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली 2008 के नियम 6 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक** के निर्वाचन के लिए संबंधित बैंक मुख्यालय के जिले के सदर अनुमंडल पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के लिए निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. अनुमंडल पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी उक्त सहकारी बैंको के निर्वाचन हेतु अपने अधीन कार्यरत प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी/ भूमि सुधार उप-समाहर्ता/उप-समाहर्ता को उप-निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

4. अनुमंडल पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सहयोग समितियाँ) के निर्देशन एवं नियंत्रण में उक्त सहकारी बैंको का चुनाव संबंधी कार्य करेंगे।
5. उक्त सभी पदनामित पदाधिकारी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 के अन्तर्गत बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण में निर्वाचन का संचालन करेंगे।
6. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 520, दिनांक 18.03.2010 को विलोपित किया जाता है।

आदेश से,

एन० एस० माधवन,

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 511-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>